

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, जून 12—जून 18, 2005, शनिवार/ज्येष्ठ 22—ज्येष्ठ 28, 1927
No. 14] NEW DELHI, JUNE 12—JUNE 18, 2005, SATURDAY/JYAISTHA 22—JYAISTHA 28, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

आ. अ. 64.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि कर्नाटक राज्य से लोक सभा 2004 के साधारण निर्वाचन के लिए जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दर्शित विधि द्वारा अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और, यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिता घोषित करता है :—

सारणी			
क्र. सं.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	15-चामराजनगर (अ. जा.)	श्री मुल्लुरु नागराजु सुपुत्र स्वर्गीय गंगाधरय्या, सं. 4222/2 आनंदपुरा, ननजंगुड टाऊन, मैसूर जिला, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
2.	20-चिकमगलूर	श्री बी. रुद्रय्या, हाले मुदिगेरे ग्राम, मुदिगेरे तालुक, चिकमगलूर जिला, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।

[सं. 76/कर्ना.-लो.स./2005]

आदेश से,

तपस कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th June, 2005

O. N. 64.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the House of the People, 2004 held from the Constituencies of Karnataka State as specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses required by law as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ;

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure.

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order.

TABLE

Sl. No.	Number and Name of Parliamentary Constituency	Name and Address of the contesting candidate	Reason for disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	15-Chamarajanagar (SC)	Sh. Mulluru Nagaraju, S/o Late Gangadhariah, No. 4222/2, Anandapura, Nanjangud Town, Mysore District, Karnataka.	Accounts not lodged
2.	20-Chikmagalur	Sh. B. Rudraiah, Hale Mudigere Village, Mudigere Taluk, Chikmagalur District, Karnataka.	Accounts not lodged.

[No. 76/KT-HP/2005]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2005

आ. अ. 65.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट मध्य प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2003 और मध्य प्रदेश विधान सभा के उप निर्वाचन, 2004 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और उक्त अभ्यर्थियों ने सन्दर्भ सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	1-श्योंपुर	सोनाबाई, सी. डब्ल्यू. सी. के पीछे तह. कराहल, जिला-श्योंपुर, मध्य प्रदेश	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	—वही—	2-विजयपुर	वनवारी, वैनीपुरा पोस्ट विजयपुर, तह. विजयपुर, जिला श्योंपुर, मध्य प्रदेश	—वही—
3.	—वही—	—वही—	शिवदयाल, ग्राम छापर, पो. व तह. विजयपुर, जिला श्योंपुर, मध्य प्रदेश	—वही—
4.	—वही—	11-अटेर	राम निवास राठौर, एडवोकेट, कलेक्ट्रेट के सामने, लहार रोड, भिण्ड, मध्य प्रदेश	—वही—
5.	—वही—	—वही—	रमेश, मुरलीपुरा, तहसील अटेर, मध्य प्रदेश	—वही—
6.	—वही—	—वही—	जगदीश, वार्ड क्र. 8, फूप, मध्य प्रदेश	—वही—
7.	—वही—	—वही—	मुख्यार खां, श्री कृष्ण नगर, अटेर रोड, भिण्ड, मध्य प्रदेश	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 10/13	16-लश्कर पूर्व	रफीक सुल्तानी, जलाल खां की गोठ, लश्कर, मध्य प्रदेश	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
9.	—वही—	18-मुरार	केशकली, एम-45, थाटीपुर, मुरार, मध्य प्रदेश	—वही—
10.	—वही—	—वही—	मुन्ना लाल सोनी, ग्राम व पोस्ट वैराड़, तह. पोहारी, मध्य प्रदेश	—वही—
11.	—वही—	—वही—	वैजंती, ग्राम भदरौनी, पोस्ट झिरी परगना, पोहरी, मध्य प्रदेश	—वही—
12.	—वही—	—वही—	हरिवल्लभ, ग्राम भदरौनी, पो. झिरी, परगना पोहरी, मध्य प्रदेश	—वही—
13.	—वही—	27-पिछोर	बाल कृष्ण, तुलसी नगर, झांसी रोड, शिवपुरी, मध्य प्रदेश	—वही—
	—वही—	—वही—	रमेश कुमार सिंह भागोर जिला दतिया, मध्य प्रदेश	—वही—
	—वही—	—वही—	इकराम उद्दीन, काजी मोहल्ला, पिछोर, मध्य प्रदेश	—वही—
16.	—वही—	—वही—	कपूर सिंह, ग्राम दबियाकलां तह. पिछोर, मध्य प्रदेश	—वही—
17.	—वही—	—वही—	नाथू राम, ग्राम व पोस्ट भांती, तह. पिछोर, मध्य प्रदेश	—वही—
18.	—वही—	—वही—	सुरेश कुमार, ग्राम सेमरी, तह. पिछोर, मध्य प्रदेश	—वही—
19.	—वही—	35-बीना	अनिल गंगाशरण ओझा, मस्जिद वार्ड, बीना, मध्य प्रदेश	—वही—
20.	—वही—	39-सागर	अनिल रायकवार, म. नं. 20/1, पुलिस चौकी के पीछे शुक्रवारी, वार्ड सागर, मध्य प्रदेश	—वही—

1	2	3	4	5
21.	मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	39-सागर	इसरायल म. नं. 13/12, सदर बाजार, सागर, मध्य प्रदेश	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
22.	—वही—	42-देवरी	मोहन सिंह राजपूत खण्डेराव वार्ड, देवरी, मध्य प्रदेश	—वही—
23.	—वही—	—वही—	कुंवर अवधराव शाह मर्सकोले ग्रा. पो. सत्ताठाना, तह. सागर, मध्य प्रदेश	—वही—
24.	—वही—	43-निवाड़ी	भागीरथ ग्राम चुरारी, पोस्ट बहेरा, तह. निवाड़ी, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश	—वही—
25.	—वही—	—वही—	सुनील ग्राम व पोस्ट निवाड़ी जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश	—वही—
26.	—वही—	66-रीवा	अशोक कुमार म. नं. 357/1, हजिरिहा परेड बिछिया, वार्ड नं. 38, रीवा, मध्य प्रदेश	—वही—
27.	—वही—	72-मठगंज	चूड़ामणि पटेल, एडवोकेट ग्राम दादर, पो. माझिगवां तह. व थाना हनुमना, जिला रीवा, मध्य प्रदेश	—वही—
28.	—वही—	—वही—	राजमणि कोल ग्राम अतरेला, पोस्ट फुल, जिला रीवा, मध्य प्रदेश	—वही—
29.	—वही—	—वही—	ब्रह्मदत्त मिश्र ग्राम मुरैठा, पो. हनुमना, जिला रीवा, मध्य प्रदेश	—वही—
30.	—वही—	—वही—	विद्यार्थी रामानुज पटेल, ग्राम पांती, महतमान, पो. पांती, जिला रीवा, मध्य प्रदेश	—वही—
31.	—वही—	80-उमरिया	शंकर दीन नि. कौड़िया तह. बाघवगढ़, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश	—वही—
32.	—वही—	—वही—	रामबख्त मरईकला, पो. विजोरी, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश	—वही—

1	2	3	4	5
33.	मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	83-कोतमा अ.ज.जा.	उदयभान, ग्राम पिपरिया, पोस्ट आ. बेलियावडी, तह. कोतमा, जिला अनुपपुर, मध्य प्रदेश	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
34.	—वही—	—वही—	विशम्भर प्रसाद रौतेल मुकाम/पोस्ट जैतपुर, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश	—वही—
35.	—वही—	84-अनुपपुर अ.ज.जा.	दुखू कोल मुकाम बरहाटोला, पो. आ. पटना, जिला अनुपपुर, मध्य प्रदेश	—वही—
36.	—वही—	85-सोहागपुर	भाई ओंकार साहू, ग्राम बकहो, पो. आ. पी. एम. अमलाई थाना अमलाई, तह. सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश	—वही—
37.	—वही—	86-पुष्पराजगढ़ अ.ज.जा.	भाई सुन्दर लाल बनवासी, ग्राम अमहाटोला, पो. आ. कठौतिया, थाना शहडोल, तह. सोहागपुर, वि. स. क्षेत्र पुष्पराजगढ़, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश	—वही—
38.	—वही—	92-कटंगी	मूल चन्द परते, मुकाम पोस्ट बोथवा, तह. कटंगी, मध्य प्रदेश	—वही—
39.	—वही—	—वही—	फिरोज खान, मुकाम पोस्ट वार्ड नं. 18, तिरोड़ी, तह. कटंगी, मध्य प्रदेश	—वही—
40.	—वही—	93-बालाघाट	प्रोफेसर नथुलालजी पंचबुधे मुकाम पोस्ट विरसोला, तह. लालबरा, मध्य प्रदेश	—वही—
41.	—वही—	—वही—	रश्मि रमेश पारधी मुकाम तुमडीटोला पो. मगरदर्रा, तह. बालाघाट, मध्य प्रदेश	—वही—
42.	—वही—	98-बजाग अ.ज.जा.	आशा तह. पोस्ट भूसण्डा, तह. जिला-डिण्डोरी, मध्य प्रदेश	—वही—
43.	—वही—	—वही—	हेमलता चैयाम ग्राम सुन्दरपुर, पोस्ट समनापुर, तह. जिला डिण्डोरी, मध्य प्रदेश	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44.	मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	114-विजयरावगढ़	ताज मोहम्मद (तज्जु भाई) ग्राम पोस्ट त. विजयरावगढ़, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
45.	—वही—	148-गोविन्दपुरा	मदन सिंह ठाकुर 3-खजूरीखुर्द, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश।	—वही—
46.	—वही—	—वही—	अमित चन्दनानी ओल्ड एच-3, क्वार्टर नं. 13-14 वै. नगर, मध्य प्रदेश।	—वही—
47.	—वही—	—वही—	पक्ष एम.आई.जी. 17-बी, सेक्टर इन्द्रपुरी, भेल, भोपाल, मध्य प्रदेश।	—वही—
48.	—वही—	—वही—	विजय कुमार कोन्डेलकर रोड क्र. 35 बी सेक्टर 100 क्वार्टर, पिपलानी, भेल, भोपाल, मध्य प्रदेश।	—वही—
49.	—वही—	149-भोपाल दक्षिण	नारायण प्रसाद, ई-6, एल.आई.जी., ए/48 अरेरा कालोनी, भोपाल।	—वही—
50.	—वही—	—वही—	ए. आर. महाजन, जी. 96/13 तुलसी नगर साऊथ टी.टी. नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश।	—वही—
51.	—वही—	—वही—	सईदा बी 71 सेटी नगर, वार्ड क्र. 64 भोपाल, मध्य प्रदेश।	—वही—
52.	—वही—	153-उदयपुरा	कुंवर रघुवीर सिंह मरकाम ग्राम कस्बा चौका, तह. बेगमगढ़, मध्य प्रदेश।	—वही—
53.	—वही—	—वही—	बृजेन्द्र सिंह लोधी, 30-झील नगर, नरेलाशंकरी भोपाल, मध्य प्रदेश।	—वही—
54.	—वही—	154-बरेली	अ. वहीद खां, छोटी मस्जिद के पास सिलवानी, मध्य प्रदेश।	—वही—
55.	—वही—	156-कुरवाई अ.जा.	विमला बाई, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।	—वही—
56.	—वही—	157-बासौदा	भारत सिंह कुशवाहा, ग्राम-रसुलपुर, पोस्ट-त्यौंदा, बासौदा, मध्य प्रदेश।	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
57.	मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	157-बासौदा	किन्नर मुन्नाराजा, मकान नं. 104, वार्ड क्र. 2, बासौदा, मध्य प्रदेश।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
58.	—वही—	159-शमशाबाद	श्याम सिंह राजपूत, ग्राम खमतला बनखेड़ी, तह. व जिला विदिशा, पोस्ट खमतला बनखेड़ी, मध्य प्रदेश।	—वही—
59.	—वही—	173-खाचरौद	भागीरथ चतुर्भुज लोदका, 52-इंदिरा चौक ग्राम पाडलयाकलां तह. नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश।	—वही—
60.	—वही—	—वही—	कृष्ण दास वैष्णव, ग्राम कसरिया, तह. खाचरौद, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश।	—वही—
61.	—वही—	195-नेपानगर	सूरसिंह भैय्या, मुकाम ग्राम बाकड़ी, पोस्ट सीवल, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश।	—वही—
62.	मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए उप चुनाव, 2004	52-नोहटा	डा. लखन लाल साहू, ग्रा. पो. तेंदूखेड़ा, वार्ड क्र. 8 गडशाला के पास, तेंदूखेड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश।	—वही—
63.	—वही—	93-बालाघाट	प्रसन्न चोरडिया, वार्ड क्र. 15, बालाघाट, मध्य प्रदेश।	—वही—
64.	—वही—	—वही—	गोवर्धन, ग्राम सिहोरा, पो. चिखला, तह. किरनापुर, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश।	—वही—

[सं. 76/म. प्र.-वि.स./2005]

आदेश

एस. के. बौरा, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th June, 2005

O. N. 65.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the table below at the General Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2003 and bye election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2004 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge account of his election expenses by the Representations of the People Act, 1951 and the rule made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And, whereas the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :

TABLE

Sl. No.	Particular of election	Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of contesting candidate	Reason for disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2003	1-Sheopur	Sonabai, Back of C.W.C., Karhal, Tehsil—Karahal, Distt.—Sheopur, Madhya Pradesh.	Failure to lodge any account of election expenses.
2.	-Do-	2-Vijaypur	Banwari, Village—Benipura, Post & Tehsil—Vijaipur, Distt.—Sheopur, Madhya Pradesh.	-Do-
3.	-Do-	-Do-	Shiv Dayal, Village—Chhapar, Post & Tehsil—Vijaipur, Distt.—Sheopur, Madhya Pradesh.	-Do-
4.	-Do-	11-Atair	Ram Niwas Rathor Advocate, Near Collectorate, Lahar Road, Bhind, Madhya Pradesh.	-Do-
5.	-Do-	-Do-	Umesh, Village—Murlipura, Tehsil—Atair, Madhya Pradesh.	-Do-
6.	-Do-	-Do-	Jagdish, Ward No. 8, Phoop, Madhya Pradesh.	-Do-
7.	-Do-	-Do-	Mukhtyar Khan, Shri Krishan Nagar, Atair Road, Bhind, Madhya Pradesh.	-Do-
8.	-Do-	16-Lashkar East	Rafique Sultani, Jalal Khan Ki Goth, Lashkar, Madhya Pradesh.	-Do-
9.	-Do-	18-Morar	Keshkali, M-45, Thatipur, Morar, Madhya Pradesh.	-Do-
10.	-Do-	25-Pohri	Munna Lal Soni, Vill. & Post—Bairar, Tah. Pohri, Madhya Pradesh.	-Do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	General Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2003	25-Pohri	Veijanti, Vill. Bhadrauni, Post-Jhiri pargana Pohri, Madhya Pradesh.	Failure to lodge any account of election expenses.
12.	-Do-	-Do-	Harivallabh, Vill. Bhadrauni, Post—Jhiri Pargana, Pohri, Madhya Pradesh.	-Do-
13.	-Do-	27-Pichhore	Bal Krishna, Tulsi Nagar, Jhansi Road, Shivpuri, Madhya Pradesh	-Do-
14.	-Do-	-Do-	Ramesh Kumar Singh Bhagor, Distt.—Datia, Madhya Pradesh.	-Do-
15.	-Do-	-Do-	Ikram Uddin, Kazi Mohalla, Pichhore, Madhya Pradesh.	-Do-
16.	-Do-	-Do-	Kapoor Singh, Village—Daviyakalan, Tah.—Pichhore, Madhya Pradesh	-Do-
17.	-Do-	-Do-	Nathu Ram, Village & Post—Bhonti, Tah.—Pichhore, Madhya Pradesh.	-Do-
18.	-Do-	-Do-	Suresh Kumar, Village—Semri, Tah.—Pichhore, Madhya Pradesh.	-Do-
19.	-Do-	35-Bina	Anil Gangasharan Ojha, Masjid Ward, Bina, Madhya Pradesh.	-Do-
20.	-Do-	39-Sagar	Anil Raikwar, House No. 20/1, Behind Shukrawari, Ward Police Station, Sagar, Madhya Pradesh.	-Do-
21.	-Do-	-Do-	Israyal, House No. 13/12, Sadar Bazar, Sagar, Madhya Pradesh.	-Do-
22.	-Do-	42-Devari	Mohan Singh Rajput, Khanderao ward, Devari, Madhya Pradesh.	-Do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	General Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2003	42-Devari	Kunwar Awadh Raj Shah Maraskhole, Vill. & Post-Sattadhana, Tehsil-Sagar, Madhya Pradesh.	Failure to lodge any account of election expenses.
24.	-Do-	43-Nivari	Bhagirath, Vill.-Churari, Post-Bahera, Tah.-Nivari, distt.-Tikamgarh, Madhya Pradesh.	-Do-
25.	-Do-	-Do-	Sunil, Vill. & Post-Nivari, Distt.-Tikamgarh, Madhya Pradesh.	-Do-
26.	-Do-	66-Rewa	Ashok Kumar, H. No. 357/1, Hajiriha Pared Bichhiya Ward No. 38, Rewa, Madhya Pradesh.	-Do-
27.	-Do-	72-Mauganj	Chudamani Patel Advocate, Village Dadar, Post-Majhigawan, Tehsil & Police Station Hanumana, District-Rewa, Madhya Pradesh.	-Do-
28.	-Do-	-Do-	Rajmani Kol, Village Atraila, Post-Phool, District-Rewa, Madhya Pradesh.	-Do-
29.	-Do-	-Do-	Bramhadutt Mishra, Village Muraittha, Post-Hanumana, Distt.-Rewa, Madhya Pradesh.	-Do-
30.	-Do-	-Do-	Vidhyarthi Ramanuj Patel, Village-Panti Mahatman, Post-Panti, District-Rewa, Madhya Pradesh.	-Do-
31.	-Do-	80-Umaria	Shankardeen, Kauria, Tehsil-Baghavgarh, Distt.-Umaria, Madhya Pradesh.	-Do-
32.	-Do-	-Do-	Rambakhs, Maraikala, Post-Vijori, Distt.-Umaria, Madhya Pradesh.	-Do-
33.	-Do-	83-Kotma (ST)	Uday Bhan, Vill.-Pipariya, P.O.-Beliyabadi, Tah.-Kotma, Distt.-Anuppur, Madhya Pradesh.	-Do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34.	General Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2003	83-Kotma (ST)	Vishambhar Prasad Rautel, Vill./P.O.-Jaitpur, Distt.-Shahdol, Madhya Pradesh.	Failure to lodge any account of election expenses.
35.	-Do-	-Do-	Dukkhu Kol, Vill.-Barhatola, P.O.-Patna, Distt.-Anuppur, Madhya Pradesh.	-Do-
36.	-Do-	85-Sohagpur	Bhai Onkar Sahu, Village-Bakaho, P.O.-O.P.M., P.S. Amlai, Tehsil-Sohagpur, Distt.-Shahdol, Madhya Pradesh.	-Do-
37.	-Do-	86-Pusprajgarh (ST)	Bhai Sunder Lal "Banvasi", Village-Amaha tola, P.O.-Kathoutiya, Tah.-Sohagpur, Distt.-Shahdol, Madhya Pradesh.	-Do-
38.	-Do-	92-Katangi	Moolchand Parte, Vill & Post-Bothwa, Tah. Katangi, Madhya Pradesh.	-Do-
39.	-Do-	-Do-	Firoj Khan, Ward No. 18, Vill. & Post-Tirodi, Tah.-Katangi, Madhya Pradesh.	-Do-
40.	-Do-	93-Balaghat	Professor Natthulalji Panchbuddhe, Vill. & Post-Birsola, Thana-Lalburra, Madhya Pradesh.	-Do-
41.	-Do-	93-Balaghat	Rashmi Ramesh Pardhi, Vill.-Tumditola, P.O.-Magardarra, Tah. & Distt.-Balaghat, Madhya Pradesh.	-Do-
42.	-Do-	98-Bajag (ST)	Asha Ram, Vill & Post-Bhusanda, Tah. & District-Dindori, Madhya Pradesh.	-Do-
43.	-Do-	-Do-	Hemlata Vaiyam, Vill.-Sundarpur, Post-Samnapur, Tah. & District-Dindori, Madhya Pradesh.	-Do-
44.	-Do-	114-Vijayraghavgarh	Taj Mohammad (Tajju Bhai), Gram-Post-Tahsil-Vijayraghavgarh, Distt.-Katni, Madhya Pradesh.	-Do-
45.	-Do-	148-Govindpura	Madan Singh Thakur, 3 Khajuri Khurd, Raisen Road, Bhopal, Madhya Pradesh.	-Do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46.	General Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2003	148-Govindpura	Amit Chandnani, Old H-3, Quarter No. 13-14, Bairagarh, Madhya Pradesh.	Failure to lodge any account of election expenses.
47.	-Do-	-Do-	Paksh, MIG-17, B Sector, Indrapuri Bhel, Bhopal, Madhya Pradesh.	-Do-
48.	-Do-	-Do-	Vijay Kumar Kondelkar, Shed No. 35, B Sector, 100 Quarter, Piplani, Bhel, Bhopal, Madhya Pradesh.	-Do-
49.	-Do-	149-Bhopal South	Narayan Prasad, E-6, LIG-A/48, Arera Colony, Bhopal, Madhya Pradesh.	-Do-
50.	-Do-	-Do-	A.R. Mahajan, G-96/13 Tulsi Nagar, South T.T. Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh.	-Do-
51.	-Do-	-Do-	Saeeda Bee, 71, Sethi Nagar, Ward No. 64, Bhopal, Madhya Pradesh.	-Do-
52.	-Do-	153-Udaipura	Kunwar Raghuveer Singh Markam, Vill.-Kasba Chauka, Tah.-Begamgarh, Madhya Pradesh.	-Do-
53.	-Do-	-Do-	Brijendra Singh Lodhi, 30-Jheel Nagar, Narelashankri, Bhopal, Madhya Pradesh.	-Do-
54.	-Do-	154-Bareilly	A. Waheed Khan, Near Choti Masjid, Sitwani, Madhya Pradesh.	-Do-
55.	-Do-	156-Kurwai (SC)	Vimla Bai, Kurwai, Distt.-Vidisha, Madhya Pradesh.	-Do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
56.	General Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2003	157-Basoda	Bharat Singh Kushwaha, Gram-Rasoolpur, Post-Tyonda, Basoda, Madhya Pradesh.	Failure to lodge any account of election expenses.
57.	-Do-	-Do-	Kinnar Munnaraja, H. No. 104, Ward No. 2, Basoda, Madhya Pradesh.	-Do-
58.	-Do-	159-Shamshabad	Shyam Singh Rajput, Gram & Post-Khamtala, Vankhedi, Tehsil & District-Vidisha, Madhya Pradesh.	-Do-
59.	-Do-	173-Khachrod	Bhagirath Chaturbhuj Lodwal, 52, Indira Chowk, Gram-Padlyakalan, Tehsil-Nagda, District-Ujjain, Madhya Pradesh.	-Do-
60.	-Do-	-Do-	Krishna Das (Vaishnava), Gram-Kesariya, Tehsil-Khachrod, District-Ujjain, Madhya Pradesh.	-Do-
61.	-Do-	195-Nepanagar	Sursingh Bhaiya, At-Bakadi, Post-Sival, Tehsil-Nepanagar, District-Burhanpur, Madhya Pradesh.	-Do-
62.	Bye Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2004.	52-Nohata	Dr. Lakhan Lal Sahu, Gram & Post-Tendukera, Ward No. 8, Near Gaushala, Tendukhera, Distt.-Damoh, Madhya Pradesh.	-Do-
63.	-Do-	93-Balaghat	Prasann Chordia, Ward No. 15 Balaghat, Madhya Pradesh.	-Do-
64.	-Do-	-Do-	Govardhan, Gram-Sihora, Post-Chikhla, Tah.-Kirnapur, Distt.-Balaghat, Madhya Pradesh.	-Do-

[No. 76/MP-LA/2003]

By Order,

S. K. KAURA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

आ.अ. 66.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2004 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने-वाला प्रत्येक अभ्यर्थी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रम संख्या	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बिहार राज्य से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	10-मुजफ्फरपुर	श्री परमा नंद सिंह, मिठनपुरा, पो.-रमना, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
2.	-वही-	22-अररिया (अ.जा.)	श्री नंदलाल पासवान, ग्राम-खाबदह, पो.-कन्हैली, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया, बिहार।	-वही-
3.	-वही-	-वही-	श्री पुष्पा नन्द ऋषिदेव, ग्राम-आर. टी. मोहन, थाना-सिमरहा, जिला-अररिया, बिहार।	-वही-
4.	-वही-	-वही-	श्री लालू पासवान, ग्राम + पो.-रामपुर मोहनपुर, थाना + जिला -अररिया, बिहार।	-वही-
5.	-वही-	23-किशनगंज	श्री विश्वनाथ केजरीवाल, शिवाजी कॉलोनी, के. हाट, जिला-पूर्णियाँ, बिहार।	-वही-
6.	-वही-	-वही-	श्री छोटे लाल महतो, नोनिया बस्ती, चुड़ीपट्टी, कॉलेज रोड, जिला-किशनगंज, बिहार।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	बिहार राज्य से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	23-किशनगंज	श्री दिलीप कुमार पंजियार, ग्रा.-करहवाड़ी, पो.-भोजपुर, प.-बेंगा, जिला-अररिया, बिहार।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं।
8.	-वही-	-वही-	श्री देव कुमार साह, लाइन मुहल्ला, जिला-किशनगंज, बिहार।	-वही-
9.	-वही-	-वही-	श्री नेवी लाल दास, ग्रा.-हवाकोल, पो.-गम्हरिया, भाया-बहादुरगंज, बिहार।	-वही-
10.	-वही-	-वही-	श्री श्याम सुन्दर ठाकुर, ग्रा. + पो.-चुरली, गलगलिया, किशनगंज, बिहार।	-वही-
11.	-वही-	32-पटना	श्री मनोज कुमार सिंह, मु.-कुम्हरहोली, पो.-लोहियानगर, थाना-कंकडबाग, जिला-पटना, बिहार।	निर्वाचन व्ययों का कोईभी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।
12.	-वही-	-वही-	श्री द्वारिका सिंह, ग्राम-वाजिदपुर, पत्रालय-चितसौरा, जिला-नालन्दा, बिहार।	-वही-
13.	-वही-	36-बिक्रमगंज	श्री श्री निवास सिंह, ग्राम/पो. असनी, जिला-भोजपुर, बिहार।	-वही-
14.	-वही-	-वही-	श्री सिपाही प्रसाद, ग्राम/पो.-गाटपा, जिला-रोहतास, बिहार।	-वही-

[सं. 76/बिहार-लो.स./2004]

आदेश से,

आर. के. श्री वास्तव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th June, 2005

O. N. 66.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the House of the People, 2004 from the State of Bihar as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge the account of his election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table ;

And, Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission after considering the representation made by them, if any is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure ;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of election	Number & name of the constituency	Name & address of the candidate	Reason of disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the House of the People, 2004	10—Muzaffarpur	Sh. Parmanand Singh, Mithanpura, Post—Ramna, Distt—Muzaffarpur, Bihar.	Failure to lodge any account of election expenses.
2.	—do—	22—Araria (SC)	Sh. Nandlal Paswan, Vill.—Khabdah P.O.—Khnailli, P.S.—Narpatganj, Distt.—Araria, Bihar.	—do—
3.	—do—	—do—	Sh. Pushpa Nand Rishideo, Vill—R. T. Mohan, P. S.—Simraha, Distt—Araria, Bihar.	—do—
4.	—do—	—do—	Sh. Lalu Paswan, Vill + P.O.—Rampur Mohanpur, P.S. + Distt—Araria, Bihar.	—do—
5.	—do—	23—Kishanganj	Sh. Vishwanath Kejariwal, Shiwaji colony, K. hat, Distt—Purnea, Bihar.	—do—
6.	—do—	—do—	Sh. Chhote Lal Mahto, Nonia Vasti Charipatti, College Road, Distt—Kishanganj, Bihar.	Failure to lodge account of election expenses in the manner required by law.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	General Election to the House of the People, 2004	23—Kishanganj	Sh. Dilip Kumar Panjiyar, Vill—Karhbari PO—Bhojpur, Panchayat—Benga, Distt—Araria, Bihar.	Failure to lodge account of election expenses in the manner required by law.
8.	—do—	—do—	Sh. Dev Kumar Sah, Line Muhalla, Distt—Kishanganj, Bihar.	—do—
9.	—do—	—do—	Sh. Nevi Lal Das, Vill—Howakol, PO—Gamharia, Via—Bahadurganj, Distt—Kishanganj Bihar.	—do—
10.	—do—	—do—	Sh. Shyam Sunder Thakur, At + PO—Churali, Galgalia, Distt—Kishanganj, Bihar.	—do—
11.	—do—	32—Patna	Sh. Manoj Kumar Singh, Moh.—Kumhartoli, P.O.—Lohianagar, P.S.—Kankarbagh, Patna, Bihar.	Failure to lodge any account of election expenses
12.	—do—	—do—	Sh. Dwarika Singh, Vill—Wajitpur, P.O.—Chiksaura, Distt. Nalanda, Bihar.	—do—
13.	—do—	36—Bikramganj	Sh. Shri Niwas Singh, Vill + PO Asani, Distt.—Bhojpur, Bihar.	—do—
14.	—do—	—do—	Sh. Sipahi Prasad, Vill + PO—Gotpa, Distt—Rohtas, Bihar.	—do—

[No. 76/BR—HP/2004]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

आ. अ. 67. — यतः भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि महाराष्ट्र विधान सभा, 2004 के साधारण निर्वाचन के लिए जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र में हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा-दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है,

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरहता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	20-उमरखाडी	श्री बाबा गोस्वामी, स्वस्तिक चेम्बरस, प्रथम तल, फ्लैट नं. 5, कारनक रोड, मुम्बई-400001	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे
2.	-वही-	26-नागपाडा	श्री भगवानसिंह बापसिंह ठाकुर, एलेक्जन्डर बिल्डिंग, द्वितीय तल, कमरा नं. 21, 14 कमाठीपुरा, आर. एस. निमकर मार्ग, नागपाडा, मुम्बई-8	-वही-
3.	-वही-	29-शिवाडी	श्री टिम्मा टिम्मप्पा गोलर, एल-19, गांधीनगर, डी. एस. रोड, वर्ली मुम्बई-18	-वही-
4.	-वही-	31-नायगांव	श्री सबीर शेख, नेशनल मार्किट, प्रबुद्ध नगर, कमरा नं. 611, आर. ए. किदवई रोड, वडाला, मुम्बई-400031	-वही-
5.	-वही-	-वही-	श्री चंद्रकांत मारुति तांबे, 36 1/1 भीमनगर, रहीवासी संघ, जेरबाई वाडिया रोड, परेल भोईवाडा, मुम्बई-400012	-वही-
6.	-वही-	-वही-	श्री यशवंत दत्ताराम गंगावाने, 41, संघर्ष वसाहत, टी. बी. अस्पताल के पास, जेरबाई वाडिया, रोड, सीवरी, मुम्बई-400015	-वही-
7.	-वही-	32-दादर	श्री शनमुगम उर्फ गणेश मुडलियार, चोकशी बिल्डिंग, पात्रा शेड नं. 356, आर. के. वैद्य रोड, रामाडे रोड, दादर, मुम्बई-400028	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	33-मतुंगा	शाजाद अहमद सिद्दिकी, झोपडा नं. 242, (926), गिरधर तांबे नगर, (कोरबा मिथागर), बाबा बरकत अली, दरगाह रोड., वडाला (पूर्व), मुम्बई-37	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
9.	-वही-	35-धारवी (अ. जा.),	दौलतराम भुजंगराव कावले, सप्तशृषि सी. एच. एस. लिमिटेड बिल्डिंग, नं. 26, फ्लैट नं. 62, एम. एच. बी. कालोनी, के सी मार्ग, बान्द्रा रिक्लेमेशन, बान्द्रा, (पश्चिम), मुम्बई-400050	-वही-
10.	-वही-	-वही-	दिनेश राजाराम सोनवाने, 8/412, बाबा रामदेव को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, सायन, प्रतीक्षा नगर, मुम्बई-400022	-वही-
11.	-वही-	52-मुलुन्द	गवान्ड पंकज सुहास, सुहास सदन, गवान्ड वाडी, अम्बिका नगर, अपना बाजार के पास, जे. एन. रोड, मुलुन्द (पश्चिम), मुम्बई-400080	-वही-
12.	-वही-	-वही-	मोहनराव तुकाराम अदसुल, लक्ष्मीबाई अकाराम काम्बले चाल, प्रताप नगर, रोड, 3/12, भान्दुप (पश्चिम), मुम्बई-400078	-वही-
13.	-वही-	57-कल्याण	चौधरी गणेशरामकृष्ण, 101 नन्दनवन अपार्टमेन्ट, प्रेम आटो के पास, मुर्बाद रोड., कल्याण (पश्चिम), 421301	-वही-
14.	-वही-	-वही-	किरण रामचन्द्र चौधरी, शुभाश्वय पहला तल, रामबाग लेन नं. 3, कल्याण (पश्चिम), जिला-थाणे-421301	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	57—कल्याण	भानुशाली वसन्तकुमार लीलाधर, गणेश निवास, हार्ड कासल कम्पनी के सामने, आनन्द नगर, नेतीवाली शिल रोड, स्थान-काटेमानीवाली, तालुक-कल्याण-421306	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
16.	-वही-	-वही-	संजय एस. मिश्रा, संचार कालोनी, चाल नं. 1, कमरा नं. 3, हाजीमलंग रोड, चेतना हाई स्कूल के पास, पीसावाली, कल्याण (पश्चिम)-421306	-वही-
17.	-वही-	59-वाडा (अ.ज.जा.)	जाधव पंधारीनाथ तुकाराम, स्थान/पोस्ट-कोने, तालुक-वाडा, जिला-धाना, महाराष्ट्र।	-वही-
18.	-वही-	72-नन्दगांव	श्री भीसे प्रकाश बाबूराव, स्थान/पोस्ट-औरंगाबाद रोड, आनन्द नगर, तालुक-नन्दगांव, जिला-नाशिक, महाराष्ट्र	-वही-
19.	-वही-	80-साकरी (अ.ज.जा.)	श्री कृष्ण बारीक ठाकरे, स्थान/पोस्ट-भारतेपाडा तालुक-साकरी, जिला-धुले, महाराष्ट्र	-वही-
20.	-वही-	84-अकरानी (अ.ज.जा.)	नाइक बाबूलाल रूपसिंह, स्थान/पोस्ट-कनसाई, तालुक-शाहदा जिला-नन्दुरबार, महाराष्ट्र	-वही-
21.	-वही-	-वही-	पादवी रविन्द्रपारशी, स्थान/पोस्ट-सुरवानी, तालुक-अकरानी, जिला-नन्दुरबार, महाराष्ट्र	-वही-
22.	-वही-	-वही-	पानसिंह फकीरा पवार, स्थान/पोस्ट-शहदा, तालुक-शाहदा, जिला-नन्दुरबार, महाराष्ट्र	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	85-शाहदा	संजीव राधेश्याम उपाध्याय, गोविन्दनगर, डोन्डियाचा, तालुक-शीन्दखेड, जिला-धुले, महाराष्ट्र	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
24.	-वही-	-वही-	जगदाने रमेश सोमा, न्यू भोई गली, नन्दुरबार, महाराष्ट्र	-वही-
25.	-वही-	-वही-	पाटिल गोविन्द हीलाल, मार्फत राजेन्द्र टेकाडे, एन-42 जी-2-7-8, शांति चौक, सी आई डी सी ओ, पवन नगर, नाशिक, महाराष्ट्र	-वही-
26.	-वही-	-वही-	पिंजारी सलीम कासम, इस्लामपुरा, स्थान/पोस्ट-डोंडाइचा, तहसील-शिन्दखेडा, जिला-धुले, महाराष्ट्र	-वही-
27.	-वही-	90-चालीसगांव	चवन सुभाष मांगो, चवन सदन, अथावाडें बाजार, पाहुर पेठ, स्थान-पाहुर, तहसील-जामनेर, जिला-जलगांव, महाराष्ट्र	-वही-
28.	-वही-	-वही-	पागरे मायावती विश्वास, स्थान-तालेगांव दभाडे, राठोर चेम्बर्स, बाघेला पार्क, तालेगांव दभाडे, तहसील-मावल, जिला-पुणे, महाराष्ट्र	-वही-
29.	-वही-	-वही-	यशोद महेन्द्र जावरू, स्थान-पिलखोड, तहसील-चालीसगांव, जिला-जलगांव, महाराष्ट्र	-वही-
30.	-वही-	-वही-	क्षीरसागर काशीनाथ हरी, सैंट्रल नाका के सामने, पावर हाउस रोड, स्थान-चालीसगांव, जिला-जलगांव, महाराष्ट्र	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.	महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	91-पराला	मालचे राजेश सुकराम, स्थान-भदगांवपेठ, तालुक-भदगांव, जिला-जलगांव, महाराष्ट्र	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
32.	-वही-	93-चोपडा	महाजन अमृतराव तुकाराम, फुलेनगर, चोपडा, महाराष्ट्र	-वही-
33.	-वही-	-वही-	दन्यानेश्वर पिताम्बर सालुंके, स्थान-कमलगांव, पोस्ट-पंचक, तहसील-चोपडा, जिला-जलगांव, महाराष्ट्र	-वही-
34.	-वही-	94-इरन्दोल	प्रो. पवार प्रतापराव रामदास, स्थान-पोस्ट-तहसील-धरनगांव, पद्मालय नगर, जिला-जलगांव, महाराष्ट्र	-वही-
35.	-वही-	95-जलगांव	श्री सपकाले नारायण पुन्डलिक, बिल्डिंग नं. 31, गेंदालाल मिल वसाहत, कनालडा रोड, जलगांव-425001, महाराष्ट्र	-वही-
36.	-वही-	-वही-	श्री कोली सूर्यभान तुकाराम, गेंदालाल मिल तराना, बिल्डिंग नं. 27, रूम नं. 20, जलगांव, महाराष्ट्र	-वही-
37.	-वही-	-वही-	श्री पटेल जहांगीर मुनाफ, 12-ए, आदर्श नगर, तालुक, जिला-जलगांव, महाराष्ट्र	-वही-
38.	-वही-	-वही-	श्री वाघ अनिल पीताम्बर, शिवाजी नगर, (गेंदालाल मिल), ब्लाक नं. 4, कमरा सं. 26, जलगांव, महाराष्ट्र	-वही-
39.	-वही-	96-पचोरा	श्री पाटिल साहेबराव गजमल, 1, स्टेट बैंक कालोनी, पचोरा, जिला-जलगांव, महाराष्ट्र	-वही-
40.	-वही-	97-जामनेर	श्री सुरवडे शांताराम लक्ष्मण, गिरजा कालोनी, जामनेर, महाराष्ट्र	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41.	महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	97-जामनेर	श्री सोनावाने भगवान पंडित, चंगदेव नगर, जामनेर, महाराष्ट्र।	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
42.	-वही-	-वही-	श्री राठोड़ साहेबराव दशरथ, स्थान-मुण्डखेडे, पोस्ट-गरखेडे, तहसील-जामनेर, महाराष्ट्र।	-वही-
43.	-वही-	98-भुसावळ	श्री सोपान चावदास फलक, स्थान/पोस्ट-साकेगांव, तालुक-भुसावळ, जिला-जलगांव, महाराष्ट्र।	-वही-
44.	-वही-	99-यावळ	श्री संजय प्रभाकर तावडे, स्थान व पोस्ट-किनगांव, तालुक-यावळ, महाराष्ट्र।	-वही-
45.	-वही-	-वही-	श्री पिंजारी फिरोज शेख गुलाब, स्थान व पोस्ट-नहावी, तालुक-यावळ, महाराष्ट्र।	-वही-
	-वही-	-वही-	श्री तायदे जयराम दगाडु, स्थान व पोस्ट-हिंंगोने, तालुक-यावळ, महाराष्ट्र।	-वही-
47.	-वही-	100-रावेर	श्री महाजन सुनील नारायण, महात्मा फुले चौक, रावेर, जिला-जलगांव, महाराष्ट्र।	-वही-
48.	-वही-	-वही-	श्री अनिल रावजी नामादे, स्थान/पोस्ट-निंभोरा (बीके), तालुक रावेर, जिला-जलगांव, महाराष्ट्र।	-वही-
49.	-वही-	-वही-	श्री कोंडे प्रदीप (बन्दु) जगतराव, स्थान/पोस्ट-निंभोरा (बीके), तालुक-रावेर, जिला-जलगांव, महाराष्ट्र।	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50.	महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	109-अकोट	श्री कैलाश महादेवराव नाथे, मोथे बरगन, पान मार्केट के पास, अकोट, जिला-अकोला, महाराष्ट्र।	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
51.	-वही-	110-बोरगांव मंजू	श्री श्रीरंग भगवानराव पिंजरकर, रवि नगर, कोलखेड, अकोला, महाराष्ट्र।	-वही-
52.	-वही-	-वही-	श्री गजानन हराने, जिला परिषद नगर, खडकी, अकोला, महाराष्ट्र।	-वही-
53.	-वही-	-वही-	श्री अशोक रामदास लद, खेतान नगर, कोलखेड, अकोला, महाराष्ट्र।	-वही-
54.	-वही-	-वही-	श्री वासुदेवराव खाडे गुरुजी, रोटवाडी, जठारपेठ, अकोला महाराष्ट्र।	-वही-
55.	-वही-	111-अकोला	श्री अल्लारखान सुजातखान, बैदपुरा, हुमायूं रोड, ओल्ड वाहिम मोटर स्टैंड, प्रभाग सं. 23, अकोला, महाराष्ट्र।	-वही-
56.	-वही-	114-वाशिम (अ.जा.)	श्री दखोरे केशव, स्थान-अदोली, तालुक, जिला-वाशिम, महाराष्ट्र।	-वही-
57.	-वही-	116-मूर्तिजापुर	प्रिंसिपल मधुकर पवार, स्थान/पोस्ट-जनुना, तालुक-बरशिताकली, जिला-अकोला, महाराष्ट्र।	-वही-
58.	-वही-	-वही-	श्री घंगावो श्रीकृष्ण गब्जी, स्थान/पोस्ट-पिंजर, तालुक-बरशिताकली, जिला-अकोला, महाराष्ट्र।	-वही-
59.	-वही-	128-पुलगांव	श्री अशोक चन्द्रभान कारोटकर, स्थान पोस्ट, तालुक-देवली, जिला-वर्धा, महाराष्ट्र।	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
60.	महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	128-पुलगांव	एडवोकेट परिशे रमेश, मारोतराव, स्थान-अन्जी (मोथी), तहसील व जिला-वर्धा, महाराष्ट्र।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
61.	-वही-	129-वर्धा	श्री प्रवीण मनोहरराव राउत, स्थान-सेवाग्राम, मेन रोड, तहसील व जिला-वर्धा महाराष्ट्र।	-वही-
62.	-वही-	175-कन्धार	विक्रम विठ्ठलराव सोर्जे, स्थान-कलम्बर (बीके), तालुक-लोहा, जिला-नान्देड, महाराष्ट्र।	-वही-
63.	-वही-	177-सिंगनापुर	शिसोदिया दीपक सिंह उत्तमराव, स्थान-देथाना, तालुक व जिला-परभनी, महाराष्ट्र।	-वही-
64.	-वही-	182-जिनतुर	एडवोकेट रणवीर कचारू घनसावध, बौद्धनगर, पुंगलवेस, वार्ड सं. 7, जिनतुर, जिला-परभनी, महाराष्ट्र।	-वही-
65.	-वही-	191-वैजापुर	मिसल अरूण चन्द्रकान्त, पोस्ट-खण्डाला, तालुक-वैजापुर, जिला-औरंगाबाद, महाराष्ट्र।	-वही-
66.	-वही-	207-कल्लम (अ.जा.)	श्री घोडके हीराचन्द गणपत, स्थान-पारदी, तालुक-वाशिम, जिला-ओस्मानाबाद, महाराष्ट्र।	-वही-
67.	-वही-	-वही-	श्री इंगाले भीमा अम्बादास, स्थान-कनहेरी, पोस्ट-पारदी, तालुक-वाशी, जिला-ओस्मानाबाद, महाराष्ट्र।	-वही-
68.	-वही-	-वही-	श्री जयन्त राघवेन्द्र कथावटे, दाता नगर, स्थान/पोस्ट/ तालुक-कल्लम, जिला-ओस्मानाबाद, महाराष्ट्र।	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
69.	महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	221-बारशी	रियासोद्दीन एहाटेशा मोद्दीन इनामदार, 1041, कस्बा पेठ एकबिराय मन्दिर के पास बारशी, जिला-सोलापुर, महाराष्ट्र।	निर्वाचन कर्मियों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
70.	-वही-	241-अम्बेगांव	श्री चन्द्रकान्त बाबूराव कनाडे, स्थान/पोस्ट-कलम्ब, तालुक-अम्बेगांव, जिला-पुणे, महाराष्ट्र।	-वही-
71.	-वही-	-वही-	श्री आत्माराम रामचन्द्र धेरंगे, स्थान/पोस्ट-लान्देवाडी तालुक-अम्बेगांव, जिला-पुणे, महाराष्ट्र।	-वही-
72.	-वही-	257-भोर	श्री गायकवाड़ सूर्यकान्त नामदेव, स्थान-कुसगांव, तालुक-भोर, जिला-पुणे, महाराष्ट्र।	-वही-
73.	-वही-	-वही-	श्री रोहीनदास धोन्डीबा जाधव, स्थान-उतरौली, तालुक-भोर, जिला-पुणे, महाराष्ट्र।	-वही-
74.	-वही-	277-शिरोल	रामदास बापुसो कोली, 5/110 मदनलाल बोहरा मार्केट, इचालकरंजी, तालुक-हटकाननगाले, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र।	-वही-
75.	-वही-	285-करवीर	मोहिते दिलीप जमाल, 144, सदर बाजार, कोल्हापुर, महाराष्ट्र।	-वही-
76.	-वही-	286-कागल	देसाई नामदेव गोविन्द, स्थान/पोस्ट-पिम्पलगांव के एच, तालुक-कागल, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र।	-वही-
77.	-वही-	288-चांदगाड	जगदीश पृथ्वीराज देसाई, स्थान, पोस्ट-किनी, तालुक-चांदगाड, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र।	-वही-

ORDER

New Delhi, the 7th June, 2005

O. N. 67.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Maharashtra Legislative Assembly, 2004 specified in column (2) and held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this Order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. and Name of Assembly Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Elections to Maharashtra Legislative Assembly, 2004	20-Umarkhadi	Sh. Baba Goswami, Swastik Chambers, First Floor, Flat No. 5, Karnac Road, Mumbai-400001	Failed to lodge any account of his election expenses.
2.	-Do-	26-Nagpada	Sh. Bhagwansingh Bapsingh Thakur Alexandra Building, 2nd Floor, Room No. 21, 14th Kamathipura, R.S. Nimkar Marg, Nagpada, Mumbai-8.	-Do-
3.	-Do-	29-Shivadi	Sh. Timma Timmappa Gollar, L-19, Gandhinagar, D.S. Road, Worli, Mumbai-18.	-Do-
4.	-Do-	31-Naigaon	Sh. Sabir Shaikh, National Market, Prabudha Nagar, Room No. 611, R.A. Kidwai Road, Wadala, Mumbai-400 031.	-Do-
5.	-Do-	31-Naigaon	Sh. Chandrakant Maruti Tambe, 36 1/1, Bhimnagar Rahiwasi Sangh, Jerbai Wadia Road, Parel Bhoiwada, Mumbai-400 012.	-Do-
6.	-Do-	31-Naigaon	Sh. Yashwant Dattaram, Gangawane, 41, Sangharsha Vasahat, Near T.B. Hospital, Jerbai Wadia Road, Sewree, Mumbai-400 015.	-Do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	General Elections to Maharashtra Legislative Assembly, 2004	32-Dadar	Sh. Shanmugam alias Ganesh Mudliyar, Chokshi Building, Patra Shed No. 356 R.K. Vaidya Road, Ranade Road, Dadar, Mumbai-400 028.	Failed to lodge any account of his election expenses.
8.	-Do-	33-Matunga	Shahjad Ahmed Siddiqui, Zopada No. 242 (926), Girdhar Tambe Nagar, (Korba Mithagar), Baba Barkat Ali Dargah Road, Wadala (E), Mumbai-37.	-do-
9.	-Do-	35-Dharavi (S.C.)	Sh. Doulatram Bhujingrao Kawle, Saptarshi CHS Ltd., Bldg. No. 26, Flat No. 62, MHB Colony, K.C. Marg, Bandra Reclamation, Bandra (W), Mumbai-400 050	-do-
10.	-Do-	-do-	Sh. Dinesh Rajaram Sonawane, 8/412, Baba Ramdev Co-op. Housing Society, Sion, Pratiksha Nagar, Mumbai-400 022.	-do-
11.	-Do-	52-Mulund	Sh. Gawand Pankaj Suhas, Suhas Sadan, Gavand Wadi, Ambika Nagar, Near Apana Bazar, J.N. Road, Mulund (W), Mumbai-400 080.	-do-
12.	-Do-	52-Mulund	Mohanrao Tukaram Adsul, Laxmibai Aakaram Kamble Chawl, Pratap Nagar Road, 3/12, Bhandup (W), Mumbai-400 078.	-do-
13.	-Do-	57-Kalyan	Choudhary Ganesh Ramkrishna, 101, Nandanvan Apartment, Near Prem Auto, Murbad Road, Kalyan (West)-421301.	-do-
14.	-Do-	-do-	Kiran Ramchandra Choudhary, Shubhashay 1st Floor, Rambaug Lane No. 3, Kalyan (West), Dist. Thane-421301.	-do-
15.	-Do-	-do-	Bhanushali Vasantkumar Liladhar, Ganesh Niwas, Opp. Hard Castle Co., Anandnagar, Netivali Shil Road, At Post-Katemanivali, Tal.-Kalyan-421306.	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)*	(5)
16.	General Elections to Maharashtra Legislative Assembly, 2004	57-Kalyan	Sanjay S. Mishra, Sanchar Colony, Chawl No. 1 Room No. 3, Hajimalang Road, Near Chetana High School, Pisavali, Kalyan (W)-421306.	Failed to lodge any account of his election expenses.
17.	-do-	59-Wada (ST)	Jadhav Pandharinath Tukaram, At/Post-Kone, Tal. -Wada, Distt.-Thane, Maharashtra.	-do-
18.	-do-	72-Nandgaon	Sh. Bhise Prakash Baburao, A/P-Aurangabad Road, Anand Nagar, Tal-Nandgaon, Distt.-Nashik, Maharashtra.	-do-
19.	-do-	80-Sakri (ST)	Sh. Krishna Barik Thakare, At. Post-Bhorte Pada, Tal-Sakri, Distt. _Dhule, Maharashtra.	-do-
20.	-do-	84-Akrani (ST)	Naik Babulal Rupsing, At/Post-Kansai, Taluka-Shahada, Distt.-Nandurbar, Maharashtra.	-do-
21.	-do-	-do-	Padvi Ravindra Parshi, At/Post-Surwani, Tal.-Akrani, Distt.-Nandurbar, Maharashtra.	-do-
22.	-do-	-do-	Pansing Fakira Pawar, At/Post-Shahada, Taluka-Shahada, Distt.-Nandurbar, Maharashtra.	-do-
23.	-do-	85-Shahada	Sanjiv Radheshyam Upadhye, Govind Nagar, Dondaicha, Tal. Shindkheda, Dist.-Dhule Maharashtra.	-do-
24.	-do-	85-Shahada	Jagdane Ramesh Soma, New Bhoi Gally, Nandurbar, Maharashtra.	-do-
25.	-do-	-do-	Patil Govind Hilal, C/o. Rajendra Tekade, N-42 G-2-7-8 Shanti Chouk, CIDCO, Pawan Nagar, Nashik, Maharashtra.	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26.	General Elections to Maharashtra Legislative Assembly, 2004	85-Shahada	Pinjari Salim Kasam, Islampur, A/P- Dondaicha, Tal.-Shindkheda, Distt.-Dhule, Maharashtra.	Failed to lodge any account of his election expenses.
27.	-do-	90-Chalisgaon	Chavan Subhash Mango, Chavan Sadan, Athavade Bajar, Pahur Peth, At Post-Pahur, Tal, Jamner, Distt.-Jalgaon, Maharashtra.	-do-
28.	-do-	-do-	Pagare Mayawati Vishwas, At Post-Talegaon, Dabhade, Rathod Chambers, Waghela Park, Talegaon Dabhade, Tal.-Maval, Distt.-Pune, Maharashtra.	-do-
29.	-do-	-do-	Yashod Mahendra Zavaru, At Post-Pilkhod, Tal. Chalisgaon, Distt.-Jalgaon, Maharashtra.	-do-
30.	-do-	-do-	Kshirsagar Kashinath Hari, Opposite Central Naka, Power House Road, At Post & Chalisgaon, Distt.-Jalgaon, Maharashtra.	-do-
31.	-do-	91-Parala	Malche Rajesh Sukram, At Post-Bhadgaon Peth, Taluka-Bhadgaon, Distt.-Jalgaon, Maharashtra.	-do-
32.	-do-	93-Chopda	Mahajan Amrutrao, Tukaram, Phule Nagar, Chopda, Maharashtra.	-do-
33.	-do-	-do-	Dyaneshwar Pitambar Salunke, At. Kamalgaon, Post-Panchak, Tal.-Chopda, Distt.-Jalgaon, Maharashtra.	-do-
34.	-do-	94-Erandol	Prof. Pawar Prataprao Ramdas, At Post-Tal.-Dharangaon, Padmalay Nagar, Distt.-Jalgaon, Maharashtra.	-do-
35.	-do-	95-Jalgaon	Sh. Sapakale Narayan Pundlik, Building No. 31, Gendalal Mill Vasahat, Kanalda Road, Jalgaon-425001, Maharashtra.	-do-
36.	-do-	-do-	Sh. Koli Suryabhan Tukaram, Gendalal Mill, 'Terana', Building No. 27, Room No. 20, Jalgaon, Maharashtra.	-do-
37.	-do-	-do-	Sh. Patel Jahangir Munaf, 12-A, Adarsh Nagar, Tal. Distt.-Jalgaon, Maharashtra.	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38.	General Elections to Maharashtra Legislative Assembly, 2004	95-Jalgaon	Sh. Wagh Anil Pitambar, Shivaji Nagar, (Gendalal Mill, B. No. 4, Room No. 26, Jalgaon, Maharashtra.	Failed to lodge any account of his election expenses.
39.	-do-	96-Pachora	Sh. Patil Sahebrao Gajmal, 1, State Bank Colony, Pachora, Distt. -Jalgaon, Maharashtra.	-do-
40.	-do-	97-Jamner	Sh. Surwade Shantaram Laxman, Girja Colony, Jamner, Maharashtra.	-do-
41.	-do-	97-Jamner	Sh. Sanowane Bhagwan Pandit, Changdev Nagar, Jamner, Maharashtra.	-do-
42.	-do-	97-Jamner	Sh. Rathod Sahebrao Dashrath, At Post-Mundkhede, Post-Garkhede, Tel. Jamner, Maharashtra.	-do-
43.	-do-	98-Bhusawal	Sh. Sopan Chavdas Phalak, A/p Sakegaon, Taluka-Bhusawal, Distt. -Jalgaon, Maharashtra.	-do-
	-do-	99-Yawal	Sh. Sanjay Prabhakar Tawade, At & Post-Kingaon, Tal. -Yawal, Maharashtra.	-do-
45.	-do-	-do-	Sh. Pinjari Firoj Sk. Gulab, At & Post-Nhavi, Tal. -Yawal Maharashtra.	-do-
46.	-do-	-do-	Sh. Tayade Jayram Dagadu, At & Post-Hingone, Tal. -Yawal Maharashtra.	-do-
47.	-do-	100-Raver	Sh. Mahajan Sunil Narayan, Mahatma Phule Chowk, Raver, Distt. -Jalgaon, Maharashtra.	-do-
48.	-do-	-do-	Sh. Anil Ravajee Nemade, A/P. -Nimbhora (Bk) Tal. -Raver, Distt. -Jalgaon, Maharashtra.	-do-
49.	-do-	-do-	Sh. Konde Pradip (Bandu) Jagatrao, A/P. Nimbhora (Bk), Tal. -Raver, Distt. -Jalgaon, Maharashtra.	-do-
50.	-do-	109-Akot	Sh. Kailash Mahadevrao Nathe, Mothe Bargan, Near Pan Market, Akot, Distt. Akola, Maharashtra.	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
51.	General Elections to Maharashtra Legislative Assembly, 2004	110-Borgaon Manju	Sh. Shrirang Bhagwanrao Pinjarkar, Ravi Nagar, Kaulkhed, Khadki, Akola, Maharashtra.	Failed to lodge any account of his election expenses.
52.	-do-	-do-	Sh. Gajanan Harane, Zilla Parishad Nagar, Akola, Maharashtra.	-do-
53.	-do-	-do-	Sh. Ashok Ramdas Lad, Khetan Nagar, Kaulkhed, Akola, Maharashtra.	-do-
54.	-do-	-do-	Sh. Wasudeorao Khade Gnuji, Rautwadi, Jatharpeth, Akola, Maharashtra.	-do-
55.	-do-	111-Akola	Sh. Alyarkhan Sujatkhan, Baidpura, Humayu Road, Old Wahim Motor Stand, Prabhag No. 23, Akola, Maharashtra.	-do-
56.	-do-	114-Washim(SC)	Sh. Dakhore Keshav, At Post-Adoli, Tq. Distt.-Washim, Maharashtra.	-do-
57.	-do-	116-Murtizapur	Principal Madhukar Pawar, At, Post-Januna, Tq.-Barshitakli, Distt.-Akola, Maharashtra.	-do-
58.	-do-	-do-	Sh. Ghangao Shrikrishna Gabaji, At, Post- Pinjar, Tq. Barshitakli, Distt.-Akola, Maharashtra.	-do-
59.	-do-	128-Pulgaon	Sh. Askok Chandrabhan Karotka, At Post Tal.-Deoli, Distt.-Wardha Maharashtra.	-do-
60.	-do-	-do-	Adv. Parishe Ramesh Marotrao, At Post-Anji (Mothi) Tah. Distt.-Wardha Maharashtra.	-do-
61.	-do-	129-Wardha	Sh. Pravin Manoharrao Raut, At Post-Sewagram, Main Road, Tahsil & Distt.-Wardha, Maharashtra.	-do-
62.	-do-	175-Kandhar	Vikram Vitthalrao Sorge, At Post-Kalambar (Bk), Tq.-Loha, Distt.-Nanded, Maharashtra.	-do-

1715GI/05-5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
63.	General Elections to Maharashtra Legislative Assembly, 2004	177-Singanapur	Shisodiya Deepaksing Uttamrao, At Post-Daithana, Tq. & Distt.-Parbhani, Maharashtra.	Failed to lodge any account of his election expenses.
64.	-do-	182-Jintur	Adv. Ranvir Kacharu Ghansawadh, Boudh Nagar, Pungalves, Ward No. 7, Jintur, Distt.-Parbhani, Maharashtra.	-do-
65.	-do-	191-Vaijapur	Misal Arun Chandrakant, Post-Khandala, Tq.-Vaijapur, Distt.-Aurangabad, Maharashtra.	-do-
66.	-do-	207-Kallam (S.C.)	Sh. Ghodke Hirachand Ganpat, A.P. Pardi, Tq.-Washim, Distt. Osmanabad, Maharashtra.	-do-
67.	-do-	-do-	Sh. Ingale Bhima Ambadas, At.-Kanheri, Post.-Pardi, Tq.-Washi, Distt.-Osmanabad, Maharashtra.	-do-
68.	-do-	207-Kallam (S.C.)	Sh. Jayant Raghavendra Kathavate, Datta Nagar, A.P.Tq.-Kallam, Distt.-Osmanabad, Maharashtra.	-do-
69.	-do-	221-Barshi	Riyasoddin Ehateshamoddin Inamdar, 1041, Kasba Peth, Near Ekvirai Temple Barshi, Distt.-Solapur, Maharashtra.	-do-
70.	-do-	241-Ambegaon	Sh. Chandrakant Baburao Kanade, A/p-Kalamb, Tal-Ambegaon, Distt.-Pune, Maharashtra.	-do-
71.	-do-	-do-	Sh. Atmaram Ramchandra Dherange, A/p-Landewadi, Tal-Ambegaon, Distt.-Pune, Maharashtra.	-do-
72.	-do-	257-Bhor	Sh. Gaikwad Suryakant Namdeo, At Post Kusgaon, Tal-Bhor, Distt. Pune, Maharashtra.	-do-
73.	-do-	-do-	Sh. Rohindas Dhondiba Jadhav At Post-Utrauli, Tal-Bhor, Distt.-Pune, Maharashtra.	-do-
74.	-do-	277-Shirol	Ramdas Bapuso Koli, 5/110 Madanlal Bohara Market, Ichalkaranji, Tal.-Hatkanangale, Distt.-Kolhapur, Maharashtra.	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
75.	General Elections to Maharashtra Legislative Assembly, 2004	285-Karvir	Mohit Dilip Jamal, E-144, Sadar Bazar, Kolhapur, Maharashtra.	Failed to lodge any account of his election expenses.
76.	-do-	286-Kagal	Desai Namdev Govind, At/Post-Pimpalgaon Kh., Tal.-Kagal, Distt.-Kolhapur, Maharashtra.	-do-
77.	-do-	288-Chandgad	Jagdish Prithviraj Desai,, At/Post-Kini, tal.-Chandgad, Distt.-Kolhapur, Maharashtra.	-do-

, [No. 76/MT-LA/2004]

By Order,

K.R. PRASAD, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

आ. अ. 68.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2003 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अन्तर्गत दाखिल करने में असफल रहा है,

और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिए हैं या उनके द्वारा दिये गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	6-सामरी अ.ज.जा.	तारकेश्वर ग्राम पोस्ट उमको, तह. सामरी, सरगुजा, छत्तीसगढ़	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	—वही—	—वही—	जिलेश्वर राम ग्राम त्रिपुरी, पो. लरीमा, तह. सामरी, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़	—वही—
3.	—वही—	—वही—	दिनेश कुजूर ग्राम व पो. चांदो, तह. सामरी जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़	—वही—
4.	—वही—	—वही—	बिरेन्द्र ग्राम हंसपुर, पो. करोंधा, तह. सामरी, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़	—वही—
5.	—वही—	—वही—	सोमनाथ भगत ग्राम व पोस्ट कुसमी, तह. सामरी, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़	—वही—

17/561/05 6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	60-भानुप्रतापपुर	द्वारका प्रसाद मु.पो. लोहत्तर, तह. भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
7.	—वही—	—वही—	भारत कुंजाम म.नं. 208 (ग) भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़	—वही—
8.	—वही—	79-गुण्डरदेही	रतन लाल बंजारे, ग्रा. धनगांव, तह. गुण्डरदेही, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़	—वही—

[सं. 76/छ.ग.-वि.स./2003]

आदेश से,

एस. के. कौरा, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th June, 2005

O. N. 68.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2003 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge the account of his election expenses within the specified time and/or in the manner required by the Representations of the People Act, 1951 and the rule made thereunder as shown in column (5) of the said table :

And, Whereas the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this Order :—

TABLE

Sl. No.	Particular of Election	Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reason for Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2003	6-Samri (ST)	Tarkeshwar, Village & Post-Umkao, Tah.-Samri, Distt.-Surguja, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses.
2.	—do—	—do—	Jileshwar Ram, Village-Tripuri, Post-Larima, Tahsil-Samri, Distt. Surguja, Chhattisgarh.	—do—
3.	—do—	—do—	Dinesh Kujur, Village & Post-Chando, Tahsil-Samri, Distt. Surguja, Chhattisgarh.	—do—
4.	—do—	—do—	Birendra, Village-Hanspur, Post-Korandha, Tahsil-Samri, Distt. Surguja, Chhattisgarh.	—do—
5.	—do—	—do—	Somnath Bhagat, Village & Post-Kusni, Tahsil-Samri, Distt. Surguja, Chhattisgarh.	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2003	60-Bhanupratappur (ST)	Dwarka Prasad, Village-Lohattar, Post-Lohattar, Tah.-Bhanupratappur, Distt.-Kanker, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses.
7.	—do—	—do—	Bharat Kunjam, Qr. No. 208 (G), Bhanupratappur, Tah.-Bhanupratappur, Distt. Kanker, Chhattisgarh.	—do—
8.	—do—	—do—	Ratan Lal Banjare, Gram-Dhangaon, Tah.-Gunderdehi, Distt.-Durg, Chhattisgarh.	—do—

[No. 76/CG-LA/2003]

By Order,

S.K. KAURA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

आ. अ. 69.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2004 के लिए जो स्तम्भ (3) में निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हता घोषित करता है:—

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	7-रोपर	श्री सुच्चा सिंह, गांव महंदधोर, डा. मालको माजरा, तहसील एवं जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब।	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	—वही—	—यथा—	श्री सुरजन सिंह, गांव व डा. नाथू माजरा, जिला संगरूर, पंजाब	—वही—
3.	—वही—	11-भटिंडा (अ.जा.)	श्री हरि सिंह पुत्र श्री लेख राम उर्फ लेख राज, विनोद नगर, वार्ड नं. 7, मानसा, पंजाब	—वही—

[सं. 76/पंजाब-लो.स./2004/(4)]

आदेश से,

के. अजय कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th June, 2005

O. N. 69.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Election to the Lok Sabha, 2004 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge an account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order made thereunder as shown in column (5) of the said table: and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	No. and Name of Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reason for disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Lok Sabha, 2004	7-Ropar	Shri Sucha Singh, Village Mandhaur, P.O. Malko Majra, Tehsil & District Fatehgarh Sahib, Punjab	Failure to lodge the account of election expenses.
2.	—do—	—do—	Shri Surjan Singh, V.P.O. Nathu Majra, District Sangrur, Punjab.	—do—
3.	—do—	11-Bathinda (SC)	Shri Hari Singh S/o Shri Lekh Ram @ Lekh Raj, Vinod Nagar Ward No. 7, Mansa, Punjab	—do—

[No. 76/PB-HP/2004 (4)]

By Order,
K. AJAYA KUMAR, Secy.

नई दिल्ली, 10 जून, 2005

आ. अ. 70.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग मेघालय सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्री पी.एस., थांगखू, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री प्रशान्त नायक आई.ए.एस. (ए.एम. 1984) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए मेघालय राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री नायक मेघालय सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री नायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मेघालय के पद पर कार्य करते हुए मेघालय सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं. 154/मेघ./2005-का. प्रशासन]

आदेश से,

स्टेन्डहोप युहलुंग, अवर सचिव

New Delhi, the 10th June, 2005

O. N. 70.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Meghalaya hereby nominates Shri Prashant Naik, IAS (AM : 1984) as the Chief Electoral Officer for the State of Meghalaya with effect from the date he takes over charge and until further orders *vice* Shri P.S. Thangkhiew, IAS.

2. Shri Naik shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Meghalaya, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Naik while functioning as the Chief Electoral Officer, Meghalaya shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Meghalaya except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/MEGH/2005-P. Admn.]

By Order,
STANDHOPE YUHLUNG, Under Secy.